

M.B. No- 1231
Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D. Work Div. Bagaha / **DIVISION**

bagaha-1 **SUB-DIVISION**

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि इस ...
 महीने द्वारा दंडित क्र० सं०-०१ से १०
 पर्यंत है। यह महीनेभर का अवधि का
 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अन्त, प्रमोद
 ... को निर्गत किया जाता है
 ७/११/११

Rm
 २६/६/११
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अन्त, प्रमोद-१

Send to Je
Subs. chg
ib/ost

Sch. XLV—Form No. 134

Rw. D. Bagaha-1 DIVISION
bagaha-1 SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

No.

Name of Officer श्री अजय कुमार

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name to work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—


No. and date of agreement.


(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work- Repair of Road					
breaches (Damaged by Flood					
for motorability in NH 28)					
TO Mehura High School)					
F.Y - 2021-22					
Work Head - I.D.R					

Measurement	
(1/2) Plv material and labour	
for laying brick bat	
$2 \times 30.10 \times 1.10 \times 0.43 =$	$28.38 m^3$
$1 \times 25.40 \times 3.50 \times 0.36 =$	$32.51 m^3$
$1 \times 15.65 \times 1.25 \times 0.45 =$	$8.80 m^3$
$1 \times 6.50 \times 3.30 \times 0.35 =$	$7.05 m^3$
$1 \times 5.40 \times 3.55 \times 0.36 =$	$6.39 m^3$
$1 \times 3.50 \times 4.15 \times 0.45 =$	$6.54 m^3$
$1 \times 2.40 \times 1.50 \times 0.56 =$	$1.68 m^3$
$1 \times 1.90 \times 1.10 \times 0.85 =$	$1.40 m^3$
$1 \times 22.10 \times 3.65 \times 1.15 =$	$92.35 m^3$
$1 \times 12.10 \times 3.55 \times 0.36 =$	$15.34 m^3$
C.D	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1x5.10x3.35x0.45=					7.154m ³
1x1.50x0.90x0.35=					0.47m ³
					208.90m ³
John 9-10-2017 J.E. 					

② Plr material and					
Labour for laying brick					
beds — T/S					
1x24.10x1.10x0.43=					11.35m ³
1x18.60x3.50x0.43=					60.54m ³
1x15.20x1.25x0.45=					8.55m ³
1x6.10x3.30x0.35=					7.05m ³
1x5.30x3.55x0.36=					6.77m ³
1x4.60x4.15x0.45=					8.59m ³
1x1.95x1.50x0.56=					1.64m ³
1x2.15x1.10x0.85=					2.01m ³
					106.50m ³
John 9-10-2017 J.E. 					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Abstr. incl. B. 6031

(1/2) P/V Material and
labour for laying
brick bed — 7/5

208.90 m³ vide Page (2)

106.50 m³ vide Page (2)

315.40 m³

@ Rs 2048.30/m³ Rs 646034.20

Rs 646034.20

Add 12% GST Rs 77524.20

Add 1% Less Rs 6460.20

Add S.P. Rs 10967.20

Rs 740985.20

Jul

5-11-2021

J.F.

[Signature]

up

[Signature]

EE